


## रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का ऑनलाइन उद्घाटन (दिनांक 28/01/2021)

आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, माउंट आबू के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद माउंटैनियरिंग संस्थान, माउंट आबू में दिनांक 25/01/2021 से 03/02/2021 तक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का संचालित किया जा रहा है जिसमें 03 अधीनस्थ अधिकारी, 02 महिला, 20 जवानों सहित कुल 26 कार्मिकों ने भाग ले रहे हैं, इस कोर्स का ऑनलाइन उद्घाटन श्री संजय चंद्रा, भा.पु.से., अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग कोर्स कि महत्ता को बतलाते हुए कहा कि 10 दिन के रॉक क्लाइंबिंग कोर्स से जंगलों, नदियों, दुर्गम पहाड़ी छेत्रों में परिचालनिक अभियान को सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए गुजरना पड़ता है, एवं विकट परिस्थितियों से मुकाबला करने में यह कोर्स आपके लिए मददगार साबित होगा तथा संभावित खतरों, सुरक्षा नियमों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने कि हिदायत दी तथा कहा कि यह प्रशिक्षण अन्य कार्मिकों के लिए जीवनोपयोगी बने। बल के परिचालन कार्य दक्षता को उंचाई तक ले जाएगा, और कार्मिकों के व्यक्तिगत कौशल में विकास होगा। अंत में रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में भाग लेने वाले सभी कार्मिकों को बधाई दी।

श्री प्रितेस सोनी, प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद माउंटैनियरिंग संस्थान, आबू पर्वत ने कहा कि यह संस्थान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों तथा जवानों को प्रशिक्षण देते आए हैं, एवं भविष्य में इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे।

इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद हॉल के मंच पर श्री अरुण कुमार, निदेशक/महानिरीक्षक, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ने अपने धन्यवाद भाषण में श्री संजय चंद्रा, भा.पु.से., अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण) का ऑनलाइन उद्घाटन करने पर आभार जताया। इस अवसर पर श्री के. थोमस जोब, उप महानिरीक्षक, तथा अकादमी के सभी राजपत्रित अधिकारी, विवेकानंद संस्थान के प्रशिक्षक तथा रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में भाग लेने वाले कार्मिक उपस्थित थे।



ऑनलाइन उद्घाटन श्री संजय चंद्रा, भा.पु.से., अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किया गया।

ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान श्री अरुण कुमार, निदेशक / महानिरीक्षक, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केरिपुबल, माउंट आबू।



ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान श्री प्रितेस सोनी, प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद माउंटैनियरिंग संस्थान, आबू पर्वत द्वारा माउंटैनियरिंग संस्थान के बारे में जानकारी देते हुए ।




ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में भाग लेने वाले कार्मिक ।



सामूहिक फोटो



ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान, आं.सु.अ. के अधिकारी तथा स्वामी विवेकानंद माउंटैनियरिंग संस्थान, आबू पर्वत के स्टाफ तथा प्रशिक्षु कार्मिक ।



रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में प्रशिक्षु कार्मिक बेसिक प्रशिक्षण रॉक, माउंट आबू पर अभ्यास करते हुए ।